



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-29.05.2022

**फर्जी दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर सिम प्राप्त करने के उद्देश्य से दूरसंचार कार्यालय में आये 02 शातिर अभियुक्त समीर आर्य व रमेश कुमार थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से सिम प्राप्त करने के उद्देश्य से दूरसंचार कार्यालय में आये 02 शातिर अभियुक्तों को 1.समीर आर्य पुत्र नागेश्वर प्रसाद नि0 बोरिंग कैनाल रोड पटना बिहार 2.रमेश कुमार पुत्र स्व0 शिवबालक चौधरी नि0 बासकोठी दीघा थाना दीघा पटना बिहार को दिनांक 28.05.22 को दूरसंचार कार्यालय से समय 18.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु.अ.स. 257/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक-28/05/2022 को वादी श्री अमित त्रिपाठी अवर दूरसंचार अधिकारी मोबाइल वाणिज्य सीटीओ नदेसर कैण्ट वाराणसी ने अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दूर संचार कार्यालय में आकर मो0नं0 9452176263 का सिम जो दूसरे के नाम से है, कूटरचित व फर्जी आईडी देकर, अपना नाम छिपाते हुये एवं धोखाधड़ी के इरादे से सिम प्राप्त करने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना कैण्ट मे अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. श्री गौरव पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1.समीर आर्य पुत्र नागेश्वर प्रसाद नि0 बोरिंग कैनाल रोड पटना बिहार उम्र करीब 22 वर्ष ।
- 2.रमेश कुमार पुत्र स्व0 शिवबालक चौधरी नि0 बासकोठी दीघा थाना दीघा पटना बिहार उम्र करीब 55 वर्ष ।

### बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त समीर के पास से विभिन्न आधार कार्ड 04,वोडर आईडी-03,पैन कार्ड-01,एटीएम-03, ट्रान्सपोर्ट कार्ड-01, डुप्लीकेट आईडी SBI बैंक व 220/- रुपया एक पर्स में रखा हुआ एवं दो अदद मोबाइल फोन सैमसंग व रेडमी तथा अभियुक्त रमेश कुमार के पास से एक अदद मोबाइल रेडमी बरामद हुआ।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 गौरव पाण्डेय चौकी प्रभारी नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का0 अजय कुमार सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी